

English

#### POLICY FOR DEFECTIVE GOODS:

All products manufactured by Tynor Orthotics (P) Limited carry six months warranty against material or manufacturing defect. Defective units must be returned to Tynor Orthotics (P) Limited through the Super Dealer concerned for replacement, along with duly filled " Product Return Form" . Liability of Tynor Orthotics (P) Limited shall be limited to the cost of product only .

Hindi

#### दोषपूर्ण माल के लिए नीति :

टायनोर ओर्थोटिक्स प्र० लि० द्वारा निर्मित सभी उत्पादों सामग्री या विनिर्माण दोष के खिलाफ छह महीने की वारंटी है। दोषपूर्ण इकाइयों विधिवत भरे "उत्पाद रिटर्न फॉर्म" के साथ, प्रतिस्थापन के लिए चिंतित सुपर व्यापारी के माध्यम से टायनोर ओर्थोटिक्स प्र० लि० को वापस कर देना चाहिए। टायनोर ओर्थोटिक्स प्र० लि० का दायित्व केवल उत्पाद की लागत को सीमित है।

Spanish

#### DECLARACIÓN SOBRE PRODUCTOS DEFECTUOSOS :

Todos los productos fabricados por Tynor Orthotics (P) Limited tienen una garantía de seis meses contra materiales defectuosos o defectos de fabricación. Las unidades defectuosas se deben devolver a TOPL a través del distribuidor a cargo de las devoluciones, junto con el formulario "Formulario de devolución de producto" debidamente llenado. La responsabilidad de TOPL se limita al coste del producto únicamente.

French

#### POLITIQUE POUR LES MARCHANDISES DÉFECTUEUSES:

Tous les produits fabriqués par Tynor Orthotics (P) Limited sont couverts par une garantie de six mois contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Les unités défectueuses doivent être retournées à Tynor Orthotics (P) Limited par le Super Dealer concerné pour être remplacées, ainsi que le «Formulaire de retour du produit» dûment rempli. La responsabilité de Tynor Orthotics (P) Limited sera limitée au coût du produit seulement.

Arabic

#### السياسة المعنية بالمنتجات المعيبة

تتمتع جميع المنتجات التي تصنعها شركة أورثوتيكس (ب) المحدودة بضمان مدته ستة أشهر ضد عيوب المادة أو عيوب التصنيع. يجب إعادة الوحدات المعيبة إلى تينور أورثوتيكس (ب) المحدودة من خلال الموزع الرئيسي المعني بالاسترداد مع "طلب إرجاع منتج" تم تعبئته في الوقت المناسب.

تتخصص مسؤولية تينور أورثوتيكس (ب) المحدودة في تكلفة المنتج فقط

## PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not Iron.



Do not bleach.



Close hook loop fasteners before washing.

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstrasse 80  
D-66386 St. Ingbert  
Germany  
tel.: +49 (0) 6894 581020  
fax: +49 (0) 6894 581021  
e-mail: info@mt-procons.com  
www.mt-procons.com

#### Symbol Explanation :

LOT

Batch code



Manufacturing date



Manufacturer

REF

Catalogue number

tynor

#### Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India  
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com  
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO 9001



W.H.O. G.M.P.

ISO 13485



US FDA registered

tynor

Ankle Wrap (Neoprene)  
एंकल रैप (नियोप्रिन)  
Tobillera (Neopreno)  
Bande pour cheville (Néoprène)  
رباط الكاحل (النيوبيرين)

REF J 16




UM-J16-19-1

## How To Use Cómo Utilizar



## कैसे उपयोग करें Comment utiliser كيفية الاستخدام


1.



- Open the hook loop fasteners and slide foot into the product so that the heel fits snugly into the heel opening.
- हुक लूप फासनेस को खोलिए और पंजे को उत्पाद में खिसकाइए ताकि एड़ी हील ओपनिंग में पर्याप्त रूप से फिट हो ।
- Abra los cierres de velcro y deslice el pie en la tobillera de manera que el talón se ajuste con comodidad a la abertura para el talón de la tobillera.
- Ouvrez les fermetures à boucles et glissez le pied dans le produit de manière à ce que le talon s'ajuste parfaitement dans l'ouverture du talon.

• قم بفتح مشابك حلقة الربط وأدخل القدم داخل الدعامة حتى يستقر الكعب بشكل مريح داخل فتحة الكعب.

2.



- Fasten first the upper strap, then stretch and tighten the bottom strap.
- पहले ऊपरी पट्टी को बांधें, फिर निचली पट्टी को फैलाएं और कस कर बांधें ।
- Apriete primero la correa superior, y después estire y apriete la correa inferior.
- Fixez d'abord la sangle supérieure, puis étirez et resserrez la sangle inférieure.


• اربط أولاً الحزام العلوي، ثم قم بتمديد وربط الحزام السفلي بأحكام.

## How To Use Cómo Utilizar



## कैसे उपयोग करें Comment utiliser كيفية الاستخدام

3.



- Tie the straps from medial to lateral side, in a "figure of eight" fashion.
- "आठ की आकृति" की तरह पट्टी को बीच से किनारे तक बांधें ।
- Apriete las correas desde el lado medial hasta el lateral, en modo "figura de ocho".
- Attachez les sangles du côté médial au côté latéral, sous forme de "chiffre huit".

• اربط الأشرطة من الجانب الإنسي إلى الجانب الأفتي، بشكل "رقم ثمانية".

4.



- Ensure to get an intimate fit without any constriction of the blood flow.
- सुनिश्चित कीजिए कि आपने रक्त प्रवाह के किसी संकुचन के बिना उचित फिट प्राप्त किया ।
- Asegúrese que la tobillera quede firmemente puesta en su tobillo sin que se impida el flujo normal de sangre al pie.
- Rassurez-vous que vous avez un ajustement intime sans aucune restriction de la circulation sanguine.

• تأكد من الحصول على الإحكام المريح دون أي تقييد لتدفق الدم.

## Ankle Wrap (Neoprene)

### English

Tynor Ankle Wrap (Neoprene) is designed to give support, compression and partial immobilization to weak or injured ankle. High-performance design for active support to injured sprained, arthritic or inflamed ankles. Dual strapping allows controlled compression and custom fitting.

### CONSTRUCTION:

Made out of three layered Neoprene bonded fabric, with a four way stretch, which ensures a snug fit and comfort of high degree. Anatomical design ensures perfect fitting. Wrap around wearing design ensures easy application & removal

### APPLICATIONS:

- Chronic ankle instability
- Prophylaxis for sporting activity
- Prevention of repetitive ankle injuries
- Sprains and Strains
- Joint effusions and swellings
- Mild Arthritis and osteoarthritis of the ankle
- Post operative and post cast care
- Improves endurance

**RECOMMENDATION :** Tighten straps optimally to ensure intimate fit, but should not impair the blood flow to the foot.

### INSTRUCTIONS: [R]

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
  - Impaired sensation
  - Impaired blood flow
  - Allergy rash or itching
  - Pain increases or persists
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.